

कसिनों की आय बढ़ाने हेतु 7 नई योजनाएँ

प्रलिमिस के लिये:

कृषि और संबद्ध कषेतर, पशुधन और बागवानी, डिजिटल कृषि मिशन (DAM), एग्री स्टैक, कृषि निरिण्य सहायता प्रणाली, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नई शिक्षा नीति 2020, कृषि विज्ञान केंद्र

मेन्स के लिये:

भारतीय कृषि कषेतर में प्रौद्योगिकी की भूमिका।

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रमिंडल ने **कृषि एवं संबद्ध कषेतरों** के लिये लगभग 14,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली सात नई योजनाओं की घोषणा की।

- ये योजनाएँ अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने, **जलवायु लचीलापन** बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को अनुकूलति करने, कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने तथा पशुधन एवं **बागवानी** के विकास पर केंद्रित हैं।
- इन पहलों का व्यापक उद्देश्य कसिनों को जलवायु-अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकीयों अपनाने के लिये आवश्यक क्षमताएँ प्रदान करना है।



प्रमुख योजनाएँ क्या हैं?

- डिजिटल कृषि मिशन (DAM):** डिजिटल कृषि मिशन के दो आधार स्तंभ हैं: **एग्री स्टैक** और **कृषि निरिण्य समर्थन प्रणाली**।
 - एग्री स्टैक:** यह प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है, जो कसिनों तथा कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है।
 - एग्री स्टैक कसिनों के लिये एक एकीकृत मंच तैयार करेगा, जो उन्हें कृषि खाद्य मूल्य शृंखला में संपूर्ण सेवाएँ प्रदान करेगा।
 - कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक कसिन के पास एक वशिष्ट डिजिटल पहचान (कसिन ID) होगी, जससे व्यक्तिगत विवरण, कृषि की भूमिके बारे में जानकारी, साथ ही उत्पादन और वित्तीय विवरण शामिल होंगे।

- प्रत्येक ID को व्यक्तिकी डिजिटल राष्ट्रीय ID [आधार](#) से जोड़ा जाएगा।

AGRISTACK: KISAN KI PEHCHAAN




Farmers' Registry

Under AgriStack, farmers will be given a digital identity (Farmer ID) similar to Aadhaar,



Geo-referenced village maps

Farmer ID will be linked to the State's land records, demographic details, family details, etc



Crop Sown Registry

Crops sown by farmers will be recorded through mobile-based ground surveys i.e. Digital Crop Survey to be conducted in each season

- कृषनिरिण्य समर्थन परणाली:** इसका उद्देश्य परासंगकि भू-स्थानकि और गैर-भू-स्थानकि डेटा जैसे रमिट-सेंसगि डेटा, मौसम डेटा, मृदा डेटा, फसल हस्ताक्षर लाइब्रेरी, जलाशय डेटा, भूजल डेटा और सरकारी योजनाओं से संबंधित डेटा को एक मानकीकृत रूप में एकीकृत व संगृहीत करना है।

Krishi Decision Support System



- मृदा प्रोफाइल मानचतिरण:**

- इसके अंतर्गत लगभग 142 मलियन हेक्टेयर कृषिभूमिके लयि 1:10,000 पैमाने पर वसितुत मृदा प्रोफाइल मानचतिरों की परकिल्पना की गई है, जसिमें 29 मलियन हेक्टेयर मृदा प्रोफाइल सूची का मानचतिरण पहले ही कथि जा चुका है।



Soil Profile Maps on a 1:10,000 scale
of about 142 million hectares of the
country's agricultural land



Digital General Crop Estimation Survey
(DG CES) will provide yield estimates
based on scientifically designed crop-
cutting experiments



Employment opportunities to about
2.5 lakh trained local youth and Krishi
Sakhis



The digital crop surveys, collection of
ground-truthed data for remote
sensing



- **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रमों के लिये फसल विज्ञान:** ये छह प्रमुख सतंभों पर आधारित हैं, अनुसंधान व शक्ति को आगे बढ़ाना, पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का प्रबंधन, खाद्य एवं चारा फसलों का आनुवंशिक संवर्धन, दलहन और तिलहन फसलों में सुधार, कीट विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा परागण पर अनुसंधान के साथ-साथ वाणिज्यिक फसल कसियों का विकास।
- **कृषि शक्ति, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान का सुदृढ़ीकरण:** इसका उद्देश्य [भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद \(ICAR\)](#) के तत्त्वावधान में कृषि शक्ति, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान का सुदृढ़ीकरण करना है
 - इस पहल का उद्देश्य [नई शक्ति 2020](#) के अनुरूप कृषि अनुसंधान और शक्ति को आधुनिक बनाना है।
 - यह कार्यक्रम डिजिटल DPI, AI, बगि डेटा और रसिट सेंसिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इसमें [प्राकृतिक कृषि तथा जलवायु अनुकूलता](#) पर केंद्रित घटक शामिल होंगे।
- **संधारणीय पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन:** यह योजना पशुधन और डेयरी क्षेत्रों से कसियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संधारणीय पशुधन स्वास्थ्य तथा उत्पादन को प्रोत्साहन के लिये समर्पित है।
 - यह योजना पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, पशु चक्रित्सा शक्ति, डेयरी उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी में उन्नति, पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन एवं सुधार, साथ ही पशु पोषण और छोटे मवेशियों (जुगाली करने वाले छोटे पशुओं) के विकास जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी।
- **उद्यान कृषि का सतत विकास:** कैबिनेट ने उद्यान कृषि के सतत विकास पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण योजना को भी स्वीकृत किया है।
 - इस पहल का उद्देश्य बागवानी फसलों की खेती के माध्यम से कसियों की आय बढ़ाना है।
 - कार्यक्रम में उषणकटिंधीय, उपोषणकटिंधीय और समशीतोषण बागवानी कसियों सहित फसलों की एक वसित्तु शृंखला है जिनमें जड़, प्रकट, कंदीय तथा शुष्क फसलें, साथ ही सब्जियाँ, फूलों की कृषि, मशरूम की फसलें, बागवानी की फसलें, मसाले, औषधीय एवं सुगंधित पौधे शामिल हैं।
- **कृषि विज्ञान केंद्र (KVK):** [कृषि विज्ञान केंद्रों](#) का उद्देश्य देश भर में कृषि विस्तार सेवाओं और स्थायी संसाधन प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना है।
 - KVK का उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, शोधन और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध उद्यमों में स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल का मूल्यांकन करना है।
- **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM):** NRM योजना को भी कैबिनेट ने स्वीकृत किया।
 - यह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य की पीढ़ियाँ अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

भारत के कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है?

■ फसल तैयारी चरण:

- **मृदा स्वास्थ्य निगरानी:** उन्नत मृदा सेंसर और रसिट सेंसिंग तकनीकों मृदा स्वास्थ्य एवं पोषक तत्त्वों के स्तर की सटीक निगरानी करने में सक्षम बनाती है। यह उत्तरकां तथा मृदा संशोधनों के लक्षण अनुप्रयोग, मृदा उत्तरता एवं स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ाने की अनुमति देता है।
- **कृषि मशीनरी:** कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने में मशीनीकरण का अहम योगदान रहा है। आधुनिक कृषि मशीनरी को अपनाने से परचिलन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और श्रम लागत में कमी आई है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- **जैव प्रौद्योगिकी:** इसने आनुवंशिक रूप से संशोधन फसलों जो कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी हैं, अनावृष्टि-सहित हैं तथा उपज बढ़ाने वाली है, के विकास में मदद की है। इन नवाचारों के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, फसल का नुकसान कम हुआ है तथा फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

■ खेती का चरण:

- **द्रोन की भूमिका:** द्रोन या मानव रहति हवाई वाहन (UAV) कृषि में परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उभरे हैं। इनका उपयोग हवाई वीजारोपण, सटीक कीटनाशक छिकाव और दूरसंचय डेटा संग्रह, अनुसंधान की सुविधा एवं कृषि प्रबंधन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के

- लयि बड़े पैमाने पर कथिया जाता है।
- कृषि-तकनीक स्टारटअप की भूमिका: कृषि-तकनीक स्टारटअप नवीन तकनीकों और आधुनिकि कृषि पद्धतियों का प्रयोग करके कृषि परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूरण भूमिका नभिते हैं।
 - वे कृषि तकनीकों में उन्नति, दक्षता में सुधार और वित्त तक पहुँच बढ़ाने में योगदान देते हैं, जसिसे कृषि कषेत्र में क्रांति आती है।
- जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियाँ: जलवायु-अनुकूल फसल कसिमों और मौसम प्रवानुमान उपकरणों जैसे नवाचार कसिनों को बदलती जलवायु परस्थितियों के अनुकूल ढलने में सहायता करते हैं
 - ये प्रौद्योगिकियाँ जलवायु-संबंधी जोखियों को कम करने और फसल के अस्ततिव को सुनिश्चित करने के लयि रणनीतियों के विकास का समरथन करती हैं।
 - नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण: सौर ऊर्जा चलति सचिई प्रणाली और बायोगैस उत्पादन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाना, टकिऊ कृषि पद्धतियों का समरथन करता है
 - ये नवाचार जीवाशम ईधन पर निभिरता को कम करते हैं और कसिनों के लयि ऊर्जा लागत को कम करते हैं।
- कटाई का चरण और खाद्य प्रसंस्करण:**
 - आपूर्ति शृंखला अनुकूलन: बलॉकचेन और IoT (इंटरनेट ऑफ थिरिस) जैसे प्रौद्योगिकी-संचालति समाधान, कृषि आपूर्ति शृंखलाओं की पारदर्शता एवं दक्षता को बढ़ाते हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ ट्रेसबलिटी में सुधार करती हैं, लेन-देन की लागत कम करती हैं और उत्पादों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चिति करती हैं।
 - सटीक पशुधन खेती: पशुधन के लयि पहनने योग्य सेंसर और नगिरानी प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकियाँ पशु स्वास्थ्य, वयवहार एवं उत्पादकता पर वास्तवकि समय का डेटा प्रदान करती हैं। इससे पशुधन के बेहतर प्रबंधन तथा पशु कल्याण में वृद्धि होती है।
 - इन तकनीकों ने खाद्य अपव्यय को कम कथिया है और खाद्य भंडारण तथा परविहन की दक्षता में सुधार कथिया है, जसिसे समग्र खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई है।
 - खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण: खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण में तकनीकी प्रगति ने यह सुनिश्चिति कथिया है कि भोजन सुरक्षित रहे तथा इसकी शेलफ लाइफ लंबी हो।
 - बाजार तक पहुँच: प्रौद्योगिकी ने कसिनों के लयि बाजार तक पहुँच में क्रांतिकारी बदलाव कथिया है, जसिसे उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों तक पहुँचने में मदद मलिनी है।
 - इंटरनेट और ई-कॉमरस प्लेटफॉर्म के उदय ने कसिनों को बचौलियों को दरकनािर करते हुए सीधे खरीदारों से जुड़ने और लाभप्रदता बढ़ाने में सक्षम बनाया है।
 - ज्ञान साझा करने के लयि डिजिटिल प्लेटफॉर्म: डिजिटिल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन फोरम कृषि ज्ञान और सर्वोत्तम पद्धतियों के प्रसार की सुवधा प्रदान करते हैं
 - कसिन वशिष्यज्ञ सलाह, शैक्षकि संसाधनों और सहकरमयों के सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं, जसिसे उन्हें बेहतर कृषि नरिण्य लेने में मदद मलिनी।

कृषि संबंधित प्रमुख पहलें:

- [प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना \(PMFBY\)](#)
- [मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना](#)
- [प्रधानमंत्री कृषि सचिई योजना \(PMKSY\)](#)
- [ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार \(e-NAM\)](#)
- [परंपरागत कृषि विकास योजना \(PKVY\)](#)
- [डिजिटिल कृषि भिशन](#)
- [एकीकृत कसिन सेवा मंच \(UFSP\)](#)
- [कृषि में राष्ट्रीय ई-गवरनेंस योजना \(NeGP-A\)](#)
- [प्रवोत्तर कषेत्र के लयि जैवकि मूलय शृंखला विकास भिशन \(MOVCDNER\)](#)

नषिकर्ष

कृषि-तकनीक में उत्पादकता, दक्षता और धारणीयता में वृद्धि दिवारा भारत के कृषि परिवृश्य में परविर्तन लाने की प्रयाप्त संभावना है, लेकन इसका सफल कार्यान्वयन कई महत्वपूरण चुनौतियों को नियंत्रित करने पर निभिर करता है। इसके अतरिकित पारंपरकि पद्धतियों के साथ कृषि-तकनीक को एकीकृत करना, वनियामक एवं नीतिगत अंतराल को संबोधति करना तथा प्रयावरणीय व सामाजिक प्रभावों पर विचार करना एक समावेशी और संवहनीय/सतत कृषि परिवर्तन को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक है।

दृष्टि भेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के कृषिक्षेत्र में परविरतन लाने में कृषि-तकनीक की भूमिका की विचाना कीजिये। इसके कार्यान्वयन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिये तथा इन मुद्दों को हल करने के उपाय बताइये? UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कनिहें कृषि में सार्वजनिक नविश माना जा सकता है। (2020)

1. सभी फसलों के कृषिउत्पाद के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
2. प्राथमिक कृषि साख समतियों का कंप्यूटरीकरण
3. सामाजिक पूंजी विकास
4. कृषकों को नशिलक बजिली की आपूरति
5. बैंकगी प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी
6. सरकारों द्वारा शीतागार सुवधाओं को स्थापित करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 5
(b) केवल 1, 3, 4 और 5
(c) केवल 2, 3 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (c)

?????

प्रश्न. 'डिजिटल भारत' कार्यक्रम खेत उत्पादकता और आय को बढ़ाने में किसानों की कसि प्रकार सहायता कर सकता है? सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं? (2015)

प्रश्न. फसल विधिता के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियाँ फसल विधिता के लिये कसि प्रकार अवसर प्रदान करती हैं? (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/7-new-schemes-to-boost-farmer-income>